



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक-25.11.2021

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध असलाह सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ० ईरज रजा महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ० निरी० श्री जगपाल सिंह की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 24.11.21 को सारा रोड से 01 नफर अभियुक्त नीरज पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी 43/7 डबल स्टोरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 24.11.21 को 20.40 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर (1) अ०स०- 1003/21 धारा 3/25 A Act बनाम् नीरज उपरोक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

नीरज पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी 43/7 डबल स्टोरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु०अ०स०- 1003/21 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम् नीरज उपरोक्त थाना मोदीनगर जनपद गा०बाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 09 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 27 अदद बण्डल सट्टे की पर्चिया व 12 अदद नये पेड व 3 अदद इस्तेमाल शुदा सट्टा पर्ची पेड व 1 अदद सट्टा रजिस्टर व 2 अदद सट्टा बेनर बडे व 2 अदद सट्टा चार्ट व 3 अदद ताश की गडिडया व 3 अदद पैन व 4 अदद इस्तेमाली सट्टा पर्ची पेड व 132 अदद पर्चिया सट्टे की व कुल रूपये 13,570 बरामद होना।

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकेट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्र०नि० श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक 24-11-2021 को गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 23.22 बजे विक्रम एन्कलेव बंगाली कालोनी तिकोना पार्क के पास से 09 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 27 अदद बण्डल सट्टे की पर्चिया व 12 अदद नये पेड व 3 अदद इस्तेमाल शुदा सट्टा पर्ची पेड व 1 अदद सट्टा रजिस्टर व 2 अदद सट्टा बेनर बडे व 2 अदद सट्टा चार्ट व 3 अदद ताश की गडिडया व 3 अदद पैन व 4 अदद इस्तेमाली सट्टा पर्ची पेड व 132 अदद पर्चिया सट्टे की व कुल रूपये 13,570 बरामद किये गये।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्ता मुमताज ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने मकान में सट्टा पर्चा की खाई बाड़ी का कार्य करती हूँ। जिसके लिये मैंने कई लोगों को अपने साथ लेकर दिल्ली व गाजियाबाद से भी अन्य लोगों को बुलाकर पर्चा सट्टा का कार्य कराती हूँ और इस कार्य के लिये मैंने कई लोगों को 500-500 रुपये देती हूँ जो ये देखते हैं कि पुलिस आती है कि नहीं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. नाजिम पुत्र मौ0 साबिर निवासी म0न0 सी 213 गली नम्बर 9/5 मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली उम्र करीब वर्ष
2. कमाल पुत्र केशर अली निवासी म0न0 340 गली नम्बर 3 करुला डबल फाटक के पास थाना मंझौला जनपद मुराबाद उम्र करीब 32 वर्ष
3. फराज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी 771 ग्राम कोटला मयूर विहार फेस 1 थाना पांडव नगर दिल्ली उम्र 23 वर्ष
4. सोनू पुत्र गुलाम गौस निवासी ई 119 विक्रम एन्कलेव जी.जी. फार्म हाउस के पास थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
5. वरीश अहमद उर्फ पप्पू पुत्र रहीस अहमद निवासी म0न0 27/364 गली नम्बर 4 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस 1 दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष
6. इमरान पुत्र सुलेमान निवासी ए 1/6 जी.2 डी.एल.एफ. दिलशाद गार्डन एक्स 2 थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
7. सुहेल पुत्र सलीम निवासी सी 213 गली नं0 9/5 जाफराबाद थाना जाफराबाद दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष
8. मौ0 रफीक पुत्र अख्तर हुसैन निवासी म0न0 165 खजूरी बाग कालोनी लुधियाना थाना सलेम टापरी जिला लुधियाना पंजाब उम्र करीब 32 वर्ष
9. आमिर पुत्र मौ0 साबिर निवासी म0न0 सी 226 ब्रजपुरी बी ब्लॉक गली नम्बर 4 थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष अभियुक्ता
10. मुमताज पत्नी जमील अहमद निवासी ए 118 विक्रम एन्कलेव बंगाली कालोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

मु0अ0स0 2288/21 धारा 3 / 4 सार्वजनिक जुआ अधि0 व 34 भादवि

600 नशीली गोलियां एल्प्राजोलाम नाजायज सहित 01 नफर शातिर अभियुक्त /

तस्कर गिरफ्तार

कार्यवाही:- दि0 25.11.21 को प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब दौराने गस्त व चैकिंग उ0नि0 सोनू कुमार द्वारा नशीली गोलियों की तस्करी के लिए जा रहे 01 नफर अभियुक्त **जाकिर पुत्र कुरबान अली निवासी मौहल्ला बडगुजरान ग्राम नाहल थाना मसूरी उम्र-35** वर्ष को गंगनहर पटरी चित्तौडा पुल के पास से कुल 600 नशीली गोलियां (एल्प्राजोलाम) सहित समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 1015/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम जाकिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका – अभियुक्त आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु नशीली गोलियों की तस्करी करने का काम करता है। दिनांक 25.11.21 को अभियुक्त जाकिर उपरोक्त को कुल 600 नशीली गोलियों (एल्प्राजोलाम) के साथ दौराने चैकिंग गंगनहर पटरी चित्तौडा पुल से उ0नि0 श्री सोनू कुमार मय टीम द्वारा समय लगभग 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर नशीली गोलियों की सप्लाई करने वालो को चिन्हित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1- जाकिर पुत्र कुरबान निवासी मौहल्ला बडगुजरान ग्राम नाहल थाना मसूरी गा0बाद उम्र-35 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

(1) 600 नशीली गोलियां एल्प्राजोलाम 0.5 mg (600×0.0986 ग्राम= कुल 59.16 ग्राम)

पंजीकृत अभियोग-

(1) मु0अ0सं0 1015/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम जाकिर